



रामाज्ञा स्कूल, नोएडा

V/ सिल्वर ज़ोन / 2018-19

हिंदी ओलंपियाड अभ्यास - पत्रक -3

सही विकल्प चुनिए -

प्रश्न -1 शब्द कहते हैं -

- (क) निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द -समूह को (ख) वर्ण -समूह को
(ग) निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण-समूह को (घ) उपर्युक्त सभी को

प्रश्न 2 .अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं -

- (क) चार -सार्थक ,निरर्थक ,शुद्ध ,अशुद्ध (ख) दो- सार्थक एवम् निरर्थक
(ग) तीन-लंबे शब्द ,छोटे शब्द ,औसत आकार के शब्द (ग) इनमें से कोई नहीं

प्रश्न 3. अं ,अः वर्ण हैं -

- (क) पंचम वर्ण (ख)अयोगवाह
(ग) आगत ध्वनि (घ) व्यंजन

प्रश्न 4. संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द को कहते हैं -

- (क) संज्ञा (ख) लिंग
(ग) वाचन (घ) भाव

प्रश्न 5. नीचे दिए गए शब्दों में से कौन- सा-शब्द स्त्रीलिंग है ?

- (क) नेता (ख) आया
(ग) काका (घ) राजा

प्रश्न 6. जो सदा सत्य बोलता हो -

- (क) सत्यवादी (ख) नास्तिक
(ग) आस्तिक (घ) परोपकारी

प्रश्न 7. प्रश्न पूछने के लिए कौन -से विराम -चिह्न का प्रयोग होता है ?

- (क) अल्प विराम (ख) विस्मयादिबोधक
(ग) प्रश्न -चिह्न (घ) पूर्ण विराम

प्रश्न 8. 'पीठ थपथपाना' मुहावरे का अर्थ है -

- (क) शाबाशी देना (ख) ललचाना
(ग) पराजित होना (घ) बदल जाना

प्रश्न 9. शुद्ध रूप चुनिए -

- (क) कृपया (ख) क्रिपया
(ग) कृप्या (घ) कृपिया

प्रश्न 10. शुद्ध वाक्य चुनिए ।

- (क) गंदा कपड़े मत पहनो । (ख) गंदे कपड़ा मत पहनो ।
 (ग) गंदा कपड़ा मत पहनो । (घ) गंदे कपड़े मत पहनो ।
- प्रश्न 11. 'कोमल ' का विलोम है -
 (क) सूखा (ख) नरम
 (ग) सख्त (घ) कठोर
- प्रश्न 12. 'अमृत' का पर्यायवाची है -
 (क) पवित्र (ख) सोम
 (ग) नीर (घ) विष
- प्रश्न 13. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने शब्द कहलाते हैं -
 (क) संज्ञा (ख) सर्वनाम
 (ग) विशेषण (घ) विशेष्य
- प्रश्न 14. जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, वह शब्द कहलाता है -
 (क) विशेष्य (ख) विशेषण
 (ग) क्रिया (घ) सर्वनाम
- प्रश्न 15. 'माला' का बहुवचन क्या है ?
 (क) मालायें (ख) मालाएँ
 (ग) मालों (घ) मालें
- प्रश्न 16 .निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

शिवाजी बहुत वीर और साहसी थे, यह तो उनकी विजयों और सफलताओं से ही स्पष्ट होता है । परन्तु उनका सबसे अधिक महत्व इस कारण है कि उन्होंने भारत में एक नई युद्ध- कला का प्रारंभ किया । शिवाजी से पहले राजपूत राजा यह समझते थे कि युद्ध में पीठ दिखाना कायरता की निशानी है ,इसलिए चाहे अपना बल कम और शत्रु का बल अधिक हो , तो भी युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाना ही सबसे बड़ी वीरता है । परन्तु शिवाजी ने यह समझा कि युद्ध का अंतिम उद्देश्य विजय है ,वीरता- प्रदर्शन अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है ।

- प्रश्न 1. शिवाजी की विजयों और सफलताओं से क्या स्पष्ट होता है ?
 (क) वह बहुत वीर और साहसी थे । (ख) वह राजपूत राजा थे ।
 (ग) वह शक्तिशाली थे । (घ) वह निर्भीक और निडर थे ।
- प्रश्न 2 शिवाजी का सबसे अधिक महत्व किस कारण है ?
 (क) उन्होंने नई युद्ध कला का विरोध किया । (ख) उन्होंने नई युद्ध कला का प्रारंभ किया ।
 (ग) पुरानी युद्ध कला को अपनाया । (घ) युद्ध नहीं किया ।
- प्रश्न 3 पहले राजपूत राजा क्या समझते थे ?
 (क) युद्ध में हार जाना कायरता है । (ख) युद्ध में पीठ दिखाना कायरता की निशानी है ।

(ग) युद्ध से भाग जाना वीरता है । (घ) युद्ध करते रहना वीरता है ।

प्रश्न 4 शिवाजी की दृष्टि में युद्ध का अंतिम उद्देश्य क्या था ?

(क) युद्ध में लड़ते- लड़ते मर जाना । (ख) युद्ध में विजय प्राप्त करना ।

(ग) वीरता का प्रदर्शन करना । (घ) युद्ध नहीं करना ।

प्रश्न 5 'वीरता' शब्द का विलोम क्या है ?

(क) विजय (ख) पराजय

(ग) कायरता (घ) कायर